



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1936 (श०)

(सं० पटना 922) पटना, मंगलवार, 11 नवम्बर 2014

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

30 सितम्बर 2014

सं० वि.उ.-02-07/11-2218—23.09.2014: CWJC No.13980/2014 में दिनांक 01.09.2014 को मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार, पटना ने मेसर्स हसनपुर सुगर मिल्स लि०, हसनपुर, जिला-समस्तीपुर (बिहार) द्वारा पेराई सत्र 2014-15 से पेराई सत्र 2016-17 तक के लिए प्रस्तुत 102 (एक सौ दो) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी किया। सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष, श्री महाताब सिंह एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष (गन्ना), सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना उपस्थित थे। इस चीनी मिल के पक्ष में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अपरम्परागत ग्रामों से संबंधित, बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या-623 दिनांक 15.11.2011 में प्रकाशित आरक्षण आदेश का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार इस चीनी मिल को समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभुतिपुर अंचल के 30 ग्राम एवं वारिसनगर अंचल के 16 ग्राम कुल 46 ग्राम आरक्षित थे।

2. अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स हसनपुर सुगर मिल्स लि०, हसनपुर, जिला-समस्तीपुर (बिहार) के कार्यपालक उपाध्यक्ष (गन्ना) श्री शंभु राय द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 1750 टी.सी.डी. थी। क्षेत्र में बाढ़ एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल की पेराई क्षमता को गत वर्ष 5000 टी.सी.डी. तक विस्तारित किया है। परन्तु, गन्ने के अभाव में उनकी चीनी मिल 35.28 लाख क्विंटल ही गन्ने की पेराई कर पायी। पेराई सत्र 2014-15 के लिए उनके चीनी मिल का एन.सी.आर. 59.84 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए सम्पन्न करवाये गये जी.पी.एस. सर्वेक्षण द्वारा गत वर्ष आरक्षित क्षेत्र में लगभग 36602 एकड़ ईख का आच्छादन है जिससे उनके चीनी मिल को 50 लाख क्विंटल पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अन्तर्गत 56 नये ग्रामों में गन्ने की खेती करायी गयी है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा गत वर्ष विभुतिपुर अंचल के 30 ग्राम एवं वारिसनगर अंचल के 18 ग्रामों, खानपुर अंचल के 14 ग्राम शिवाजीनगर प्रखण्ड के 1 ग्राम, कल्याणपुर अंचल के 30 ग्राम, सरायरंजन अंचल के 1 ग्राम, समस्तीपुर अंचल के 1 ग्राम तथा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बन्दरा अंचल के 7 ग्राम कुल 102 ग्रामों को उनके पक्ष में अपरम्परारूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

3. अपरंपरागत गांवों के आरक्षण से संबंधित सुनवाई के क्रम में परिषद (Council) या क्षेत्रीय विकास परिषद के पक्ष (या उनकी राय)/परामर्श प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं०-1996 दिनांक-12.09.2014 के माध्यम से

संबंधित जिले के समाहर्ता से अनुरोध किया गया था परन्तु, परिषद (Council) की राय अप्राप्त रही। दिनांक 18.09.2014 को क्षेत्रारक्षण के संबंध में राज्य के गन्ना कृषकों एवं उनके प्रतिनिधियों की भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर के पक्ष को भी सुना गया।

4. विभागीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित प्रतिवेदन, संबंधित चीनी मिल द्वारा क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव तथा मिल प्रतिनिधि के अनुसार पाया गया कि मेसर्स हसनपुर सुगर मिल समस्तीपुर, (बिहार) की क्षमता अब 3000 से बढ़कर 5000 TCD (पेराई क्षमता प्रतिदिन) हो गई है और वर्ष 2013-14 पेराई सत्र में इस मिल द्वारा कुल 35.28 लाख क्विंटल गन्ना का क्रय किया गया तथा 2.94 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2013-14 में इस मिल का Normal Cane Requirement (NCR) 39.93 लाख क्विंटल था। गत् पेराई सत्र में इस मिल ने कुल 103 दिन पेराई की और कुल 35.27 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी। वर्ष 2014-15 के लिए इस चीनी मिल का एन.सी.आर. 59.84 लाख क्विंटल निर्धारित है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत और सभी सम्बद्ध पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स हसनपुर सुगर मिल समस्तीपुर, (बिहार) के पक्ष में पेराई सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (तीन पेराई सत्रों) के लिए बिहार राज्य के निम्नांकित जिला के निम्नांकित प्रखंडों के अंतर्गत कॉलम-3 में अंकित गांवों, जिसका ग्रामवार विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची-क' (यथा-कॉलम सं०-4) में अंकित है, अपरंपरागत रूप से आरक्षित किया जाता है:-

जिला का नाम	प्रखंड/प्रखंडों का नाम	समेकित कुल गांवों की संख्या	विस्तृत अनुसूची का संदर्भ
1	2	3	4
समस्तीपुर	विभूतिपुर	30	अनुसूची "क"
	खानपुर	14	
	वारिसनगर	18	
	शिवाजीनगर	01	
	कल्याणपुर	30	
	सरायरंजन	01	
	समस्तीपुर	01	
	बांद्रा	07	
	कुल-	102	

लेखापित एवं शुद्धिकृत  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

आदेश से,  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

मेसर्स हसनपुर सुगर मिल समस्तीपुर, (बिहार) के पक्ष में पेराई सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (तीन पेराई सत्रों) के लिए अपरंपरागत रूप से आरक्षित किये गये 102 ग्रामों की सूची।

अनुसूची 'क'

जिला का नाम	प्रखंड	गाँव का क्रमांक	गाँव का नाम	गाँव का थाना नं०
समस्तीपुर	विभूतिपुर	1	बेलसन्डी तारा	3
		2	सिधिया बुर्ज	4
		3	कोवरिया	5
		4	बेलसन्डी डीह	6
		5	माधोपुर	6
		6	कल्याणपुर	8
		7	महती	9
		8	महथी टोला आलामपुर	9
		9	विभूतिपुर	10

जिला का नाम	प्रखंड	गौव का क्रमांक	गौव का नाम	गौव का थाना नं०
		10	कापन	10
		11	गौरीया	11
		12	नरहन	12
		13	पुशवन	13
		14	शाहपुर	14
		15	पतेलिया	15
		16	कर्ख	16
		17	देशरी	17
		18	साखमोहन	18
		19	मंदा	18
		20	गगोली	19
		21	चाँदसुरारी	20
		22	सर्मथा	26
		23	सलखनी	27
		24	सोनवारचक	29
		25	सिगरसी	30
		26	एकडारा	31
		27	बहेती	32
		28	रामनगर	33
		29	खोकशाहा	110
		30	सैदपुर	216
	खानपुर	1	शादीपुर	211
		2	टेगराहा	213
		3	दिलावनपुर	214
		4	सदोखा	215
		5	सैदपुर	216
		6	बिक्रमपट्टी	217
		7	फतहपुर	218
		8	हसनपुर	219

जिला का नाम	प्रखंड	गौव का क्रमांक	गौव का नाम	गौव का थाना नं०
		9	विशुनपुर	220
		10	तलअगरा	221
		11	नथुद्वार	229
		12	चक्का	230
		13	बुजुर्गद्वार	231
		14	शिवसिंहपुर	232
	वारिसनगर	1	धुरलक	84
		2	बाबुपुर	85
		3	मकसूदनपुर	88
		4	शेखोपुर	128
		5	धनहर	201
		6	दौलतपुर	197
		7	सतमलपुर	198
		8	मथुरापुर	139
		9	कुसैया	144
		10	रघुनाथपुर	146
		11	रहुआ	179
		12	सुखपुर	139
		13	रहुआ पूर्वी	189
		14	छतनेश्वर	203
		15	साडी	205
		16	हजपुरवा	204
		17	पकही	195
		18	रिओरा	196
	शिवाजीनगर	1	बनहार	-
	कल्याणपुर	1	फुलहारा	55
		2	ध्रुवगामा	57
		3	अरेला	57
		4	सिमरिया अंदौली	59

जिला का नाम	प्रखंड	गौव का क्रमांक	गौव का नाम	गौव का थाना नं०
		5	मालीपुर	60
		6	पकाड़ी	63
		7	बखरी	63
		8	खरसड़	64
		9	मिर्जापुर	68
		10	घोरनगर	69
		11	बड़हेत्ता	70
		12	पकड़ी गोमदा	70
		13	गोरिना	72
		14	भागवानपुर	72
		15	भिन्डी	73
		16	सहुरी	74
		17	रतवारा रामबहादुर	76
		18	गोविन्दपुर खजरी	76
		19	मधुवन	90
		20	बौकीपुर	94
		21	बिरसिंगपुर	94
		22	अंजना	94
		23	चकजफर	70
		24	साजनपुर	70
		25	मिन्डी	72
		26	बासुदेवपुर	108
		27	चाधरपुर	123
		28	केसोपट्टी	124
		29	कोयलापुर	72
		30	जखाड़ा	198
	सरायरंजन	1	कटिहारा	317
	समस्तीपुर	1	गुदरी बाजार	318
	बान्द्रा	1	सभहादयपुर	94

जिला का नाम	प्रखंड	गौव का क्रमांक	गौव का नाम	गौव का थाना नं०
		2	घोसरामा	893
		3	छपरा	894
		4	बान्द्रा	899
		5	सकरी चौदपुर	903
		6	सकरी मन	905
		7	पटसारा	911

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 922-571+50-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>